

देश के राजनैतिक इतिहास की पुर्नव्याख्या जरूरी: विक्रमजीत

- 'स्वतंत्र: प्रिंसिपल्स, पीपल, पॉलिटिक्स' कान्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्र पार्टी और राजाजी को किया याद

नई दिल्ली। फ्रेडरिक न्यूमन फाउंडेशन और नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी के संयुक्त त्वावधान में थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा शनिवार को 'स्वतंत्र: प्रिंसिपल्स, पीपल, पॉलिटिक्स' विषयक कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया और स्वतंत्र पार्टी आर्काइव का विमोचन किया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सभागार में आयोजित तीन सत्रों के इस कान्फ्रेंस के दौरान नेहरू मेमोरियल के डायरेक्टर डा. शक्ति सिन्हा, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के प्रेसिडेंट डा. पार्थ जे शाह, फ्रेडरिक न्यूमन फाउंडेशन, साऊथ एशिया के डायरेक्टर डा. रोनाल्ड मेनाइर्स, पोलिटिकल साइंस, जेएनयू की प्रोफेसर गुरप्रीत महाजन, पोलिटिकल साइंस, डीयू के प्रोफेसर अशोक आचार्य, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनय सीतापति, नालैंड के एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट विक्रमजीत बैनर्जी, डेवलपमेंट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के प्रोफेसर एम.एन. पाणिनी, सेंटर फॉर पोलिटिकल स्टडीज़, जेएनयू की प्रोफेसर विधु वर्मा, अशोका यूनिवर्सिटी की डा. माल्विका माहेश्वरी, आंथर व पब्लिक इन्टेलिक्चुअल गुरचरण दास, उड़ीसा से लोकसभा के सांसद तथागत सतपथी, वरिष्ठ पत्रकार सीथा, पोलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की प्रोफेसर वसंथी श्रीनिवासन, स्वराज्य मैगजीन के एडिटोरियल डायरेक्टर आर. जगन्नाथन ने विभिन्न सत्रों को संबोधित किये।

कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नागालैंड के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट विक्रमजीत बैनर्जी ने भारत के राजनैतिक इतिहास की पुर्नव्याख्या की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि भारत के राजनैतिक इतिहास की व्याख्या अबतक कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से किया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी के डा. विनय सीतापति ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के विचारों में समानता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक समय जनसंघ के वरिष्ठ नेता बलराज मंडोक चाहते थे कि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का एक में विलय हो जाए। डा. पार्थ जे शाह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक नेता राजगोपालाचारी (राजाजी) और महात्मा गांधी के आत्मीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए राजाजी को महात्मा गांधी का सच्चा अनुयाई बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सरकार वाली व्यवस्था में कम विश्वास रखते थे और वे एक पोलिटिकल अनार्किस्ट थे।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें . .

अविनाश चंद्र, 9999882477/ avinash@ccs.in

BOARD OF TRUSTEES

Luis Miranda, Chairman
Parth J Shah, President
Ashish Dhawan
Gurcharan Das
Iris Madeira
Niranjan Rajadhyaksha
Premila Nazareth

ADVISORS

Amit Kaushik
Ankur Shah
Geeta Gandhi Kingdon
Praveen Chakravarty
Reuben Abraham

SCHOLARS

Ajay Shah
Deepak Lal
Isher J Ahluwalia
Jagdish Bhagwati
Leland Yeager
Lord Meghnad Desai
Shreekant Gupta
Surjit Bhalla
Swaminathan Aiyar
Urjit Patel